



टिप्पणी

5

आंकड़ों की व्याख्या तथा सांख्यिकीय आरेख

अपने दैनिक जीवन में हमें समाचार पत्रों, दूरदर्शन, कम्प्यूटर और बातचीत के द्वारा विविध प्रकार की सूचनाएँ मिलती रहती हैं। इनमें से कुछ सूचनाएँ मात्रात्मक होती हैं तथा अन्य गुणात्मक होती हैं। गुणात्मक सूचनाओं को संख्यात्मक रूप में मापा नहीं जा सकता है। सांख्यिकी का सम्बन्ध मुख्य रूप से मात्रात्मक सूचनाओं से होता है जिन्हें संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है। इस पाठ में हम सांख्यिकीय आंकड़ों तथा विविध प्रकार के आरेखों और मानचित्रों के द्वारा उनके प्रदर्शन का अध्ययन करेंगे।



उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात् आप:

- सांख्यिकीय आंकड़ों की तालिका और सांख्यिकीय आरेखों में अन्तर कर सकेंगे।
- माध्य, माधियका, बहुलक और शतमक की गणना कर सकेंगे।
- विभिन्न प्रकार के आरेखों जैसे रेखा, दंड, वृत्त एवं तारा आरेखों और बिन्दु मानचित्र को पहचान सकेंगे।
- रेखा, दंड, वृत्त और तारा आरेखों की रचना कर सकेंगे।
- दिये गये आंकड़ों के लिए उपयुक्त आरेख चुन सकेंगे।
- प्रत्येक आरेख के गुणों व दोषों की विवेचना कर सकेंगे।

5.1 सांख्यिकीय आंकड़े: प्रदर्शन और व्याख्या

उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के एक निर्धान व्यक्ति को लेते हैं और भारत



के एक धानवान व्यक्ति को। यदि इस भारतीय व्यक्ति की आय संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्धान व्यक्ति की आय से अधिक हो, तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक धानवान है। कर्तई नहीं, क्योंकि हमारी तुलना का आधार एक समान नहीं है। इस तुलना में हम संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के विशिष्ट व्यक्तियों की आय को ले रहे हैं, जो उनके देशों की आय का प्रतिनिधित्व नहीं करती।

अतः ऐसी तुलना के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की बड़ी जनसंख्या की आय पर विचार किया जाता है। इसके लिए हम लोगों की वार्षिक आय, कृषीय उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, बेरोजगारी दर, विभिन्न क्षेत्रों की कुल जनसंख्या, आदि के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या या क्षेत्रों के संबंध में ये सभी जानकारियां संख्यात्मक होती हैं। जन समूह की माप से संबंधित संख्यात्मक सूचनाओं को आंकड़े कहते हैं। व्यक्ति या किसी एक घटना से संबंधित संख्यात्मक सूचना आंकड़े नहीं है।

भूगोल में सांख्यिकीय आंकड़ों का बहुत महत्व है। आंकड़ों के द्वारा हमें भौगोलिक तथ्यों जैसे तापमान, वर्षा, कृषि और औद्योगिक उत्पाद, जनसंख्या आदि की सांख्यिकीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हम उन्हें व्यवस्थित करते हैं, विश्लेषण करते हैं तथा उनसे निष्कर्ष निकालते हैं।

आंकड़ों के स्रोत

आंकड़े प्राप्त करने के दो प्रमुख स्रोत हैं: द्वकऋ प्राथमिकूते और द्वखऋ द्वितीयकूते

द्वकऋ प्राथमिक स्रोत : जब अनुसंधानकर्ता या उसकी टीम प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र में आकर आंकड़े एकत्र करती है तो इस प्रकार के संकलित आंकड़ों को प्राथमिक स्रोत आंकड़े कहा जाता है। इस विधि द्वारा आंकड़े एकत्र करने में बहुत समय और धान खर्च होता है और साथ ही बहुत से लोगों की इस काम के लिए आवश्यकता पड़ती है।

द्वखऋ द्वितीयक स्रोत: ये विभिन्न प्रकार की मुद्रित सूचनाएं एवं सारणियां होती हैं, जिन्हें सरकार के अलग-अलग विभाग सामान्य उपयोग के लिए तैयार करते हैं। उपभोक्ता के लिए द्वितीयक स्रोत आंकड़े कम खर्चीले होते हैं। इनसे समय की बचत होती है और इनके एकत्र करने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निर भी द्वितीयक स्रोत आंकड़े बहुत ही सामान्य होते हैं और उनमें उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार सारे ब्योरे नहीं होते। भारत की जनगणना द्वितीयक आंकड़ों के लिए सर्वोत्तम स्रोत है।

5.2 सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रदर्शन

भिन्न स्रोतों से एकत्रित आंकड़ों की यथार्थ व्याख्या के लिए प्रक्रिया की जरूरत होती है। बहुधा सम्पूर्ण आंकड़े के लिए एक अकेला प्रतिनिधि मूल्य प्राप्त करना आवश्यक हो



टिप्पणी

आंकड़ों की व्याख्या तथा संख्यिकीय आरेख

जाता है। सम्पूर्ण आंकड़ा वितरण के लिए एक अकेली प्रतिनिधि संख्या निकालने वाला संख्यिकीय तरीका केन्द्रीय प्रवृत्ति कहलाता है। केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन प्रत्येक वितरण का प्रतिनिधि होने के अलावा, भिन्न वितरणों की तुलना करने में हमारी मदद करता है। यह मापन सामान्यतया वितरण में मूल्यों के केन्द्रीय बिन्दु, अन्तराल और घटना को बताते हैं। केन्द्रीय प्रवृत्ति के आम प्रयोग किए जाने वाले मापन हैं :

अंकगणितीय माध्यम या औसत

माध्यिका

बहुलक

शतमक

द्विक्रम अंकगणितीय माध्यम या औसत

यह अक्सर उपयोग किया जाता है। इसकी गणना दिए गये वितरण में सभी पृथक द्विमोर्च्छ मूल्यों के योग को उनकी कुल संख्या से विभाजित करने से होती है। उदाहरण के लिए पांच जिलों में प्रति एकड़ धान का उत्पादन 10, 8, 12, 9 और 6 किवंटल है। इन जिलों के लिए धान का औसत उत्पादन है :

$$\frac{10+8+12+9+6}{5} = \frac{45}{5} = 9 \text{ किवंटल प्रति एकड़}$$

अंकगणितीय माध्यम समीकरण के रूप में नीचे अधिव्यक्त किया गया है :

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N} \quad \dots(i)$$

जहाँ \bar{X} = औसत मूल्य

ΣX = सभी X मूल्यों का योग

N = मदों/व्यक्तियों की संख्या

अंकगणितीय माध्यम आसानी से छोटे अवर्गित आंकड़े के लिए निकाला जा सकता है। तथापि, यदि मदों की संख्या ज्यादा है और आंकड़ा समूहों या वर्गों के आवृत्ति वितरण के रूप में दिया गया है तो अंकगणितीय माध्यम निम्नलिखित समीकरण की सहायता से निकाला जायेगा।

$$\bar{X} = \frac{\sum fm}{\sum f} \quad \dots(ii)$$

जहाँ \bar{X} अंकगणितीय माध्यम है,

f आवृत्ति है,

m वर्गों का मध्य मूल्य है।



उदाहरण

निम्नलिखित सारणी में दिए तापमान छह से मेंत्रह आंकड़े से औसत की गणना करें।

वर्ग छतापमान डिग्री C मेंत्रह <i>X</i>	दिनों की संख्या <i>f</i>	मध्य मूल्य <i>m</i>	
		<i>fm</i>	
1 - 05	20	3	60
06 - 10	24	8	192
11 - 15	44	13	572
16 - 20	72	18	1296
21 - 25	76	23	1748
26 - 30	60	28	1680
31 - 35	52	33	1716
36 - 40	4	38	152
41 - 45	8	43	344
	$\Sigma f = 360$ दिन		$\Sigma fm = 7760$

उपरोक्त से

$$\Sigma fm = 7760$$

$$\Sigma f = 360$$

$$\bar{X} = \frac{7760}{360} = 21.56^\circ \text{ से. तापमान}$$

माध्य के नयदे

- इसके द्वारा पूर्ण वितरण को समझना आसान है और इसे निकालना सरल है।
- यह वितरण में मूल्यों का औसत है। अतः नमूना सर्वेक्षणों की स्थिति में इसका संतुलनात्मक व्यवहार होता है।
- सामान्य वितरण की स्थिति में यह कानूनी इस्तेमाल होता है।

अंकगणितीय माध्य की कुछ परिसीमाएँ हैं। अतिशय या चरम मूल्यों का इस पर असर पड़ता है, विशेष रूप से, जब मूल्य या मान बड़े होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय लोगों की आय में भिन्नताएँ बहुत व्यापक हैं।

छह माध्यिका

यह सर्वाधिक मध्य में स्थिति संबंधी औसत है। यह आंकड़े को बढ़ते या घटते क्रम में

आंकड़ों की व्याख्या तथा संख्यिकीय आरेख

व्यवस्थित करके निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, माध्यिका का मूल्य प्रेक्षणों की कुल संख्या में एक जोड़कर और उसके योग को दो से भाग देकर निकाला जाता है। यह निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है :

$$\text{माध्यिका} = \frac{N+1}{2} \quad \dots(\text{iii})$$

उदाहरण के लिए यदि हमें देश के लिए माध्यिका अक्षांश और देशांतर निकालने में रुचि है, तो हमें इन वितरणों को सारणी रूप में (क्रमब) करना होगा।

भारत के प्रधान भूभाग की अक्षांश सीमा ($8^{\circ}4' \text{ उ. से } 37^{\circ}6' \text{ उ.}$)

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

भारत की माध्यिका या सर्वाधिक मध्य अक्षांश 23° उ. है जो कर्क रेखा ($23^{\circ}30' \text{ उ.}$) के समीप है। क्योंकि भारत का प्रधान भूभाग $8^{\circ}4' \text{ उ.}$ से प्रारम्भ होता है जो कि 9वें अक्षांश का भाग है और $37^{\circ}6' \text{ उ.}$ तक विस्तारित होता है जो कि 37° अक्षांश को पूर्णतया सम्मिलित करता है। अतः भारत के अक्षांश का विस्तार लगभग 29° अक्षांश हैं। अतः माध्यिका अक्षांश 23° उ. है अर्थात्

$$\text{माध्यिका} = \frac{N+1}{2} = \frac{29+1}{2} = \frac{30}{2} = 15^{\circ} \text{ उ.}$$

8° द्व्यभारत का दक्षिणी छोरऋ + $15^{\circ} = 23^{\circ} \text{ उ.} + 15^{\circ}$ द्व्यमाध्यिका मूल्यऋ = 23° द्व्यभारत का मध्य पूर्वी अक्षांशऋ। इसी तरह से, हम भारत की देशांतरीय सीमा का माध्यिका मूल्य भी निकाल सकते हैं। भारत की देशांतरीय सीमा $68^{\circ} 7' \text{ पू.}$ से $97^{\circ} 25' \text{ पू.}$ तक होती है।

देश के लिए माध्यिका या सर्वाधिक मध्य देशान्तर 83° पू. है।

सारणी 5.3

68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97

स्थानीय समय देश के मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय समय की द्विनीनविच माध्य समय द्वजीएमटीऋ से जुड़ा होता हैऋ गणना करने के लिए देशांतर का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय मानक समय की गणना $80^{\circ} 30' \text{ पू.}$ देशांतर को आधार के रूप में रखते

भूगोल

प्रयोगात्मक पुस्तिका



टिप्पणी

भूगोल

प्रयोगात्मक पुस्तिका



टिप्पणी

आंकड़ों की व्याख्या तथा संख्यकीय आरेख

हुए की जाती है। देश के लिए माध्यिका देशांतर 83° पू. है जो मानक मध्यान्ह देशांतर के समीप है। इसका प्रयोग भारतीय मानक समय की गणना करने के लिए किया जाता है।

$$\text{माध्यिका} = \frac{N+1}{2} = \frac{29+1}{2} = 15^{\circ} + 68^{\circ} = 83^{\circ}$$

माध्यिका के गुण

1. सर्वाधिक मध्य स्थिति होने की वजह से माध्यिका वितरण में चरम मूल्यों से अप्रभावित रहती है जैसे कि औसत की स्थिति में होता है।
2. यह विभाजन स्थिति है जो पंक्तियों को लगभग दो समान भागों में विभाजित करता है और गुरुत्व का केन्द्र बना रहता है।
3. तथापि, यह आंकड़े को बढ़ते या घटते क्रम में क्रमब) किए बिना नहीं निकाला जा सकता है। यदि आंकड़ा बड़ा है तो यह लम्बा और नीरस कर देने वाला कार्य हो सकता है। यदि एक या दो मध्ये पंक्ति में जोड़ या घटा दी जाती है तो माध्यिका का मूल्य अनियमित हो जाता है।

द्व्याप्रश्न बहुलक

यह केन्द्रीय प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण मापन तरीका है। वितरण में मध्यों का अधिकतम संकेन्द्रण बहुलक को निश्चित करता है। सामान्यतया अवर्गीकृत आंकड़ों में सर्वाधिक बारम्बारता वाला मूल्य बहुलक होता है। इसी तरह, वर्गब) आंकड़े के लिए अधिकतम आवृत्ति वाला वर्ग पता लगाकर बहुलक की गणना की जाती है। बहुलक वितरण में मद के अधिकतम बारम्बारता की केन्द्रीयता इंगित करता है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बस्तियों का वितरण नीचे दिया गया है। आंकड़े से बहुलक निकालिए।

सारणी 5.4

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बस्तियों का वितरण, 2001

ग्रामीण बस्तियों का आकार	बहुत छोटा (500 जनसंख्या से कमतम)	छोटा (500-999)	मध्यम (1500-1999)	बड़ा (2000-4999)	बहुत बड़ा (5000 और इससे ज्यादातम)
वितरण का अनुपात	16.70	23.45	47.96	10.60	1.29

हल : बस्तियों को उनकी जनसंख्या के आकार के आधार पर घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लगाइये। प्रत्येक के सामने बारम्बारता लिखिए। अब बारम्बारता की तुलना कीजिए। (1000-1999) 47.96 बहुलक के रूप में पहचाना जाता है।



टिप्पणी

बहुलक के गुण

1. यह वितरण का सर्वाधिक प्रतीकात्मक मूल्य होता है। बहुलक की स्थिति निरीक्षण द्वारा आसानी से पता लगाई जा सकती है। यह साधारण व्यक्ति द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
2. कुछ चरम मूल्यों के होने से बहुलक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

तथापि, यह केन्द्रीय प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण मापन नहीं है, जब तक कि प्रेक्षणों की संख्या अधिक न हों। सामान्य और विषम, दोनों वितरणों में बहुलक केन्द्रीय प्रवृत्ति का प्रभावकारी माप नहीं रहता है।

द्व्यक्षत्रैशतमक

यह एक मापन है जो वितरण को 100 समान हिस्सों में विभाजित करता है। वितरण में यह विभिन्न वर्गों या श्रेणियों को समझने में मदद करता है। इसे निम्न रूप से व्यक्त करते हैं :

$$P = \frac{P \times N}{100} \quad \dots(iv)$$

जहां P शतमक है और N मदों की संख्या है।

99 शतमक होते हैं, P_1, P_2, \dots, P_{99}

सारणी 5.5

एक क्षेत्र में परिवारों की मासिक आय का विवरण

आय समूह द्वारु.त्रैश	वास्तविक संख्या	प्रतिशत विवरण
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग द्व्य500 रु. से नीचेरह	112	56.0
निम्न आय समूह द्व्य500 - 999त्रह	41	20.5
मध्यम आय समूह द्व्य1000 - 4999त्रह	29	14.5
उच्च आय समूह द्व्य5000 व अधिकत्रह	18	9.0
कुल	200	100.0



टिप्पणी

आंकड़ों की व्याख्या तथा सांख्यिकीय आरेख

सारणी 5.6

एक क्षेत्र में परिवारों की प्रति व्यक्ति मासिक आय का विवरण

आय समूह छत्रपते मेंश्र	परिवारों की संख्या छत्राम्बारतात्र	संचयी बारम्बारता
500 से कम	112	112
500 - 999	41	153
1000 - 4999	29	182
5000 व अधिक	18	200
कुल	200	

आइये अब 60 वें शतमात्र का P_{60} के रूप में गणना करें।

$$\text{अब } P_{60} = 60 \times 200 \div 100 = 120$$

आय 500-999 के समूह में आयेगी।

5.3 आरेखों द्वारा सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रदर्शन

किसी भी चर से संबंधित आंकड़ों का संकलन चाहे प्राथमिक स्रोत से किया गया हो अथवा द्वितीयक स्रोत से, वे सभी अपरिष्कृत तथा अव्यवस्थित रूप में होते हैं। अपरिष्कृत आंकड़ों से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। इनमें से कुछ के मान बहुत ऊंचे, कुछ के बहुत नीचे और कुछ के इन दोनों के बीच होते हैं। इस प्रकार ये मान इधार-उधार बिखरे हुए होते हैं। जब इन आंकड़ों को किसी व्यवस्थित ढंग से सारणीब) किया जाता है तो उनसे कुछ उपयोगी जानकारी उभरती है। अतः सांख्यिकीय सारणियां बहुत ही सुविधाजनक होती हैं, क्योंकि वे आंकड़ों को एक सुव्यवस्थित ढंग से निरूपित करती हैं। यदि इन आंकड़ों को आरेखों द्वारा प्रदर्शित किया जाये तो उन मानों की सीधी मानसिक तुलना करना सम्भव हो जाता है।

हम आंकड़ों को आरेखों द्वारा क्यों प्रदर्शित करते हैं?

नीचे दिए गए बिन्दुओं द्वारा अपरिष्कृत आंकड़ों की अपेक्षा आरेखों के लाभ प्रकट होते हैं। आरेखों के निम्न लाभ हैं:

- प्रदर्शित विषयवस्तु में अधिक रुचि जगाना।
- इससे विषयवस्तु स्पष्ट और आसान हो जाती है।
- इनके द्वारा आंकड़ों की जल्दी और सही तुलना की जा सकती है।

आंकड़ों की व्याख्या तथा सांख्यिकीय आरेख

- (iv) ये अंतर्निहित तथ्यों और सम्बन्धों को स्पष्ट करते हैं और विश्लेषणात्मक विचार करने को प्रेरित करते हैं।
- (v) आरेख सांख्यिकीय सूचना की तुलना में अधिक चित्रात्मक और आकर्षक होते हैं। निम्नलिखित प्रमुख आरेखों द्वारा विविध प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े प्रदर्शित किये जा सकते हैं:

ब्लॉक रैखिक ग्राफ

ब्लॉक दंड आरेख

ब्लॉक वृत्तारेख और

ब्लॉक तारा आरेख

ब्लॉकट्रॉफ रैखिक ग्राफ

किसी क्षेत्र के तापमान या वर्षा संबंधी आंकड़े ऐसे चरांक हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। इसी प्रकार जनसंख्या, कृषीय और औद्योगिक उत्पादन, वैयक्तिक आय, विभिन्न वस्तुओं का मूल्य, आदि ऐसी चर संख्यायें हैं जो समय के साथ घटती-बढ़ती रहती हैं। इन चर आंकड़ों को एकत्रित करके, समय अनुसार सारणी () किया जाता है। यदि इन आंकड़ों को ग्राफ कागज पर इस प्रकार अंकित करके कि क्षैतिज अक्ष या x अक्ष पर समय दिखाया जाये और ऊर्धवाधार अक्ष या y अक्ष पर चर मानों को दर्शाया जाये और इनसे मिले बिन्दुओं को सरल रेखाओं से जोड़ा जाये तो जो चित्र बनता है, उसे रैखिक ग्राफ कहते हैं।

उदाहरण

नीचे एक स्थान के 12 महीनों के औसत मासिक अधिकतम तापमान अंश सेल्सियम ब्लॉकट्रॉफ में दिये गये हैं। इन आंकड़ों को रैखिक ग्राफ द्वारा निरूपित करिये:

सारणी 5.7

महीने	ज.	न.	मा.	अ	म	जू.	जु.	अ	सि.	अ	न.	दि.
तापमान ब्लॉकट्रॉफ	24.5	26.6	32.2	38.1	42.5	44.3	40.4	33.4	30.2	29.7	29.2	25.0

इन आंकड़ों का सबसे अच्छा निरूपण रैखिक ग्राफ द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि तापमान प्रत्येक माह बदल रहे हैं। इसके लिए x अक्ष पर महीने और y अक्ष पर तापमान दर्शाने से 12 बिन्दु मिलते हैं। इन बिन्दुओं को सरल रेखाओं से मिलाने पर चित्र 5.1 की भाँति रैखिक ग्राफ तैयार हो जाता है।

सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि औसत मासिक अधिकतम तापमान जनवरी में सबसे कम है और जून में आंशिक रूप में बढ़ते हैं। मार्च और अप्रैल में तापमान तेजी

भूगोल

प्रयोगात्मक पुस्तिका




टिप्पणी



से बढ़ते हैं और अधिकतम 44.3°से. जून में पहुंच जाते हैं। जुलाई भी कही गर्म है। अगस्त से दिसम्बर तक तापमान पुनः गिरते जाते हैं।

समय के अनुसार तापमान के बदलने संबंधी ऊपर दिये निष्कर्ष का विवरण देने की आवश्यकता रैखिक ग्राफ के होने पर नहीं पड़ती। कोई भी व्यक्ति रैखिक ग्राफ छवित्र 5.1 को देखकर किसी स्थान के तापमान में चक्रीय परिवर्तन को आसानी से समझ सकता है।



चित्र 5.1 रैखिक ग्राफ

रैखिक ग्राफ बनाने के नियम

- अचर आंकड़े जैसे दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष आदि x अक्ष पर दर्शाये जाते हैं और तापमान, वर्षा, उत्पादन आदि जैरे चर आंकड़े y अक्ष पर दर्शाये जाते हैं।
- x अक्ष और y अक्ष पर दर्शाये गये मानों से जो बिन्दु प्राप्त होते हैं, उन्हें सरल रेखाओं से मिलाया जाता है।
- चूंकि x अक्ष और y अक्ष की इकाइयाँ अलग-अलग हैं, अतः उनके लिये अलग-अलग पैमाना चुना जाता है।
- सामान्यतया ऊर्धवार्धार पैमाना शून्य से प्रारम्भ किया जाता है, जिससे सम्पूर्ण मान दर्शाये जा सकें। निर भी यदि चरांक किसी निश्चित मान से प्रारम्भ होते हैं तो उसी को y अक्ष का प्रारम्भिक मान रखा जाता है। उदाहरण के लिए चरांक के मान 12050, 12020, 12180, 12200, 12140, 12040, 12120... आदि हैं। इनमें 12000 के बाद मान बदल रहे हैं। अतः y अक्ष का प्रारम्भिक मान 12000 रखा जायेगा।
- रैखिक ग्राफ में समय के चरांकों का अन्तराल अधिकतर निश्चित होता है। ये

आंकड़ों की व्याख्या तथा संख्यिकीय आरेख

घटे, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष, आदि हो सकते हैं। यद्यपि यह नियम अनिवार्य नहीं हैं, फिर भी स्पष्टता की दृष्टि से अन्तराल निश्चित ही रखा जाता है।

रैखिक ग्रफ की विशेषताएँ

- (i) यह किसी परिवर्तन के परिवर्तनों की पिछली एवं वर्तमान दोनों प्रवृत्तियों को दर्शाता है।
- (ii) इसकी मदद से मध्यवर्ती एवं भविष्य के मानों का भी अनुमान लगाया जा सकता है।
- (iii) रैखिक ग्रफ में समय और चरांकों के मानों के बीच गणितीय संबंधों की तुलना निकटतम या लगभग ही हो पाती है।
- (iv) गणितीय संबंध की तुलना में रैखिक ग्रफ ज्यादा जगह घेरता है।

बहुरेखीय या मिश्रित ग्रफ

कभी-कभी एक से अधिक चरों के मानों को अलग-अलग रेखाओं द्वारा एक ही रैखिक ग्रफ पर दर्शाया जाता है, जिससे एक-दूसरे के बीच संबंधों की आसानी से तुलना की जा सकती है। उदाहरण के लिये हम अनेक वर्षों के नियांत एवं आयात के आंकड़े एक ही ग्रफ पर दर्शा सकते हैं। यह नियांत के संदर्भ में हुए आयात के परिवर्तनों को आसानी से दर्शा सकता है। दोनों के बीच का अन्तर व्यापार संतुलन भी दर्शाता है। इसी प्रकार हम किसी देश के कई वर्षों के जन्मदर और मृत्युदर के आंकड़े एक ही ग्रफ पर दर्शा सकते हैं। इन दोनों के बीच का अन्तर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि) दर बताता है। हम विभिन्न कृषीय उत्पादों का उत्पादन भी एक ग्रफ पर दिखा सकते हैं। इससे ज्ञात होता है कि किस उत्पाद के उत्पादन की प्रवृत्ति ऊपर की ओर है और किसकी नीचे की ओर। हम एक ही ग्रफ पर मासिक अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के आंकड़े दर्शा सकते हैं। इन दोनों के अन्तर से मासिक ताप परिसर का बोधा होता है।

उदाहरण

रैखिक, ग्रफ जो एक से अधिक प्रकार के चरांकों को दर्शाये, उसे बहुरेखीय या मिश्रित ग्रफ कहते हैं।

भारत की अपरिष्कृत जन्मदर छाअ.ज.द.ऋ और अपरिष्कृत मृत्युदर छाअ.म.द.ऋ के अनुमानित आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं। इन्हें बहुरेखीय या मिश्रित ग्रफ द्वारा दर्शाइये तथा इसकी व्याख्या करिये।

सारणी 5.8

वर्ष	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991
अ.ज.द. छाप्रति 1000 मेंह	49	47	45	43	44	42	37	30
अ.म.द. छाप्रति 1000 मेंह	49	37	33	31	26	20	15	10

भूगोल

प्रयोगात्मक पुस्तिका




टिप्पणी



आंकड़ों की व्याख्या तथा संख्यकीय आरेख

इन आंकड़ों को चित्र 5.2 में दिये ग्रफ द्वारा दर्शाया गया है। जैसे कि निर्देशिका में बताया है कि जनसंख्या के इन दोनों प्रकार के आंकड़ों को दो अलग-अलग रेखाओं से दर्शाया गया है। अपरिष्कृत जन्मदर और अपरिष्कृत मृत्युदर का ग्रफ दर्शाता है कि 1921–1991 के बीच दोनों ही घटे हैं। निर भी ग्रफ दर्शाता है कि अपरिष्कृत जन्मदर की तुलना में अपरिष्कृत मृत्युदर में अत्यधिक गिरावट आई है। अ.ज.द. और अ.म.द. के बीच बढ़ते हुए अन्तर को भी ग्रफ में दोनों रेखाओं के बीच छायांकित क्षेत्र से दर्शाया गया है।



चित्र 5.2 बहुरेखीय या मिश्रित ग्रफ

द्वारकारूप दंड आरेख

कभी-कभी चर आंकड़ों के मान समय के संदर्भ में न होकर क्षेत्र, वस्तुओं या अन्य किसी संदर्भ में दिये जाते हैं, तो ऐसे आंकड़ों को रैखिक ग्रफ के बजाय सामान्यतया दंड आरेख द्वारा दर्शाया जाता है।

दंड आरेख कैसे बनाएँ

1. दंड आरेख में y अक्ष पर संख्यात्मक पैमाना दिया जाता है और x अक्ष पर क्षेत्रों, वस्तुओं आदि के नाम निश्चित अंतराल पर दिये जाते हैं। दंड उर्धवाधार रूप में बनाए जाते हैं।

आंकड़ों की व्याख्या तथा संख्यिकीय आरेख

तीन मापक माने जाते हैं:

- (i) दंडों की चौड़ाई का पैमाना: सभी दंडों की चौड़ाई समान होनी चाहिए।
- (ii) दंडों के मध्य अंतराल के लिए पैमाना: यह अंतराल दंडों की चौड़ाई की तुलना में कम होना चाहिए।
- (iii) चर आंकड़ों के पैमानों को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। संख्याएं पूर्ण अंकों में होनी चाहिए। पैमाने के चयन का सि)न्त रैखिक ग्राफ जैसा ही होगा।
2. दंडों की लम्बाई की गणना पैमाने और आंकड़ों के आधार पर की जाती है।
3. इसके बाद बिन्दु अंकित करने के बाद दंड खींचे जाते हैं।
4. रैखिक ग्राफ के अनुसार ही दंड आरेख में नामांकन किया जाता है।

उदाहरण

भारत के कुछ बड़े राज्यों की जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार नीचे दी जा रही है। इन आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा निरूपित करिये।

सारणी 5.9

क्र. सं.	राज्य	जनसंख्या द्वदस लाख में	क्र. सं.	राज्य	जनसंख्या द्वदस लाख में
1.	आन्ध्र प्रदेश	66.5	10.	मध्य प्रदेश	66.2
2.	असम	22.4	11.	महाराष्ट्र	78.9
3.	बिहार	86.4	12.	उड़ीसा	31.7
4.	गुजरात	41.3	13.	पंजाब	20.3
5.	हरियाणा	16.5	14.	राजस्थान	44.0
6.	हिमाचल प्रदेश	5.2	15.	तमिलनाडु	55.9
7.	जम्मू और कश्मीर	7.7	16.	उत्तर प्रदेश	139.1
8.	कर्नाटक	45.0	17.	पश्चिम बंगाल	68.1
9.	केरल	29.1			

स्रोत: भारत की जनगणना 1991

चित्र 5.3 के अनुसार ऊपर दिये आंकड़े को ग्राफ कागज पर दंड आरेख द्वारा दर्शाया गया है। आप देखेंगे कि सारणी में दिये ग्राफ मानुसार राज्यों को x अक्ष पर दर्शाया गया

भूगोल

प्रयोगात्मक पुस्तिका



टिप्पणी

भूगोल


प्रयोगात्मक पुस्तिका



टिप्पणी

आंकड़ों की व्याख्या तथा संख्यकीय आरेख

है। प्रत्येक राज्य के बीच समान दूरी का यहां कोई अर्थ नहीं। यह छोटी सी दूरी एक राज्य को दूसरे राज्य से अलग करने के लिये दिखाई गई है। y अक्ष पर इन दंडों की ऊँचाई उनकी जनसंख्या के अनुपात में है और इस पर पैमाना दिया है छंद 1.25 सेमी बराबर है 1 करोड़ जनसंख्या के बराबर है।



चित्र 5.3 दंड आरेख

सुविधानुसार राज्यों को उनकी जनसंख्या के घटते या बढ़ते क्रम में दर्शाया जाता है। ऊपर बताये गये दंड आरेखों को ऊर्ध्वाधार दंड आरेख कहा जाता है, क्योंकि उनमें दर्शाये गये दंड ऊर्ध्वाधार हैं। हम इन दंडों को क्षैतिज रूप में भी दिखा सकते हैं और इस स्थिति में आरेख को क्षैतिज दंड आरेख कहा जायेगा। क्षैतिज दंड आरेख में y अक्ष पर नाम छनामों का पैमानाक्रृत दिये जाएंगे और x अक्ष पर संख्यात्मक मान छनामों का पैमानाक्रृत दर्शाये जायेंगे।

मिश्रित दंड आरेख

दंड द्वारा दर्शाये गये चर आंकड़ों में कई बार बहुत कम उपर्यां या श्रेणियाँ होती हैं। इन उपर्यां को एक ही दंड में दिखाया जाता है। इस प्रकार के दंड आरेख में विभिन्न चरांकों के अधिकतम मान और प्रत्येक चरांक के उपर्यां के मान साथ-साथ दर्शाये जाते हैं। इसे एकीकृत दंड आरेख भी कहते हैं।

मिश्रित दंड आरेख में प्रत्येक दंड का अधिकतम मान दर्शाने के साथ प्रत्येक उपर्यां के

आंकड़ों की व्याख्या तथा संख्यिकीय आरेख

भी मान उसी दंड में दिखाये जाते हैं।

उदाहरण

भारत के प्रमुख राज्यों की कुल जनसंख्या और उसका विभाजन ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के रूप में नीचे दिया गया है। इन आंकड़ों को मिश्रित दंड द्वारा दर्शाइये, जिसमें प्रत्येक राज्य की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या भी दिखाई गई हों।

सारणी 5.10
जनसंख्या द्वादस लाख मेंश्ट

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण	नगरीय	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	48.6	17.9	66.5
2.	असम	19.9	2.5	22.4
3.	बिहार	75.0	11.4	86.4
4.	गुजरात	27.1	14.2	41.3
5.	हरियाणा	12.4	4.1	16.5
6.	हिमाचल प्रदेश	4.7	0.5	5.2
7.	जम्मू और कश्मीर	5.9	1.9	7.7
8.	कर्नाटक	31.1	13.9	45.0
9.	केरल	21.4	7.7	29.1
10.	मध्य प्रदेश	50.8	15.4	66.2
11.	महाराष्ट्र	48.4	30.5	78.9
12.	उड़ीसा	27.4	4.3	31.7
13.	पंजाब	14.3	6.0	21.3
14.	राजस्थान	34.0	10.0	44.0
15.	तमिलनाडु	36.8	19.1	55.9
16.	उत्तर प्रदेश	111.5	27.6	139.1
17.	पश्चिम बंगाल	49.4	18.7	68.1

स्रोत: भारत की जनगणना, 1991

मिश्रित दंड आरेख की रचना सामान्य दंड आरेख की रचना से अधिक भिन्न नहीं है।

भूगोल

प्रयोगात्मक पुस्तिका



टिप्पणी




आंकड़ों की व्याख्या तथा संख्यकीय आरेख

इसमें पहले दंड खींचे जाते हैं, फिर प्रत्येक दंड को उसी पैमाने के अनुसार उप-वर्गों में बांटा जाता है। इन उप-वर्गों का संकेत निर्देशिका में दिया जाता है। ऊपर दिये आंकड़ों का मिश्र दंडों द्वारा निरूपण चित्र 5.4 में दिखाया गया है।

वर्तमान स्थिति में प्रत्येक दंड के केवल दो ही उपवर्ग हैं। अन्य स्थितियों में कई उप-वर्ग हो सकते हैं। ऐसी दशा में प्रत्येक दंड को कई उप-वर्गों में विभाजित किया जाता है। इन सभी उप-वर्गों का संकेत निर्देशिका में दिया जाता है।

कभी-कभी प्रत्येक वर्ग के सम्पूर्ण मानों की अपेक्षा उसके उप-वर्गों के अनुपातिक मान अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसी स्थिति में उप-वर्गों को प्रतिशत में बदला जाता है और प्रत्येक वर्ग के उप-वर्गों का योग 100 होता है। अतः प्रत्येक दंड का आकार एक समान होता है जो अपने सभी उप-वर्गों के योग 100 को बताता है। दंड के प्रत्येक उप-वर्ग को अलग-अलग आभाओं या रंगों द्वारा दर्शाया जाता है।



चित्र 5.4 मिश्रित दंड आरेख

बहु दंड आरेख

किसी घर के उप-वर्गों को बहुधा पास-पास दिखाना अधिक अच्छा होता है। इसमें एक क्षेत्र के सभी उप-वर्गों को पास-पास दंडों द्वारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक उप-वर्ग के

आंकड़ों की व्याख्या तथा संख्यिकीय आरेख

दंड को अलग-अलग आभा द्वारा दिखाया जाता है और उसका संकेत निर्देशिका में दिया जाता है। मिश्रित दंड आरेख की तुलना में बहु दंड आरेख का गुण यह है कि इनमें विभिन्न उप-वर्गों के बीच सीधो तुलना करना आसान होता है। मिश्रित दंड आरेख में विभिन्न उप-वर्ग एक के ऊपर एक दर्शाये जाते हैं, जबकि बहु दंड आरेख में वे साथ-साथ होते हैं, इस कारण उनके बीच तुलनात्मक अध्ययन आसान और जल्दी हो जाता है। जब उप-वर्ग बहुत होते हैं और प्रेक्षण इकाइयाँ कम होती हैं तो बहु दंड आरेख अधिक उपयुक्त होता है। इसके दूसरी ओर जब उप-वर्ग थोड़े होते हैं और प्रेक्षण इकाइयाँ ज्यादा होती हैं तो मिश्रित दंड अधिक उपयुक्त होता है।

उदाहरण

1994-95 में भारत के चार राज्यों में विभिन्न कार्यों में उपयोग की गई बिजली के आंकड़ों को बहु दंड आरेख द्वारा दर्शाइये और विभिन्न राज्यों में उपयोग की गई बिजली की तुलना करिये।


सारणी 5.11

कुछ राज्यों में विभिन्न कार्यों में बिजली का उपयोग
झकरोड़ किलोवॉट/घंटों में

क्र.सं.	राज्य	घरेलू	वाणिज्य	औद्योगिक	अन्य	कुल
1.	आस्था प्रदेश	332.0	68.3	754.9	1208.6	2363.8
2.	बिहार	73.6	42.2	637.0	219.0	971.8
3.	महाराष्ट्र	685.3	256.5	1665.1	1481.9	4088.9
4.	उत्तर प्रदेश	613.3	190.5	482.7	1566.2	2552.4

स्रोत: स्टेटिस्टिकल एक्सट्रैक्ट अफ इंडिया 1997

चित्र 5.5 में बहु दंड आरेख दिखाया गया है। यहाँ बिजली के उपयोग के चार वर्ग हैं। अतः प्रत्येक राज्य के लिये चार दंड बनाये जायेंगे-एक दंड में एक ही वर्ग दिखाया जायेगा। इन दंडों की ऊँचाई उपयोग की गई बिजली की मात्रा झकरोड़ किलोवाटत्र के अनुपात में होगी।



भूगोल

प्रयोगात्मक पुस्तिका



टिप्पणी



दंड आरेख की विशेषताएँ

- (i) दंड आरेख में चित्रों द्वारा तुलना की जाती है जो आंकड़ों द्वारा तुलना करने से ज्यादा प्रभावी होता है।
- (ii) कई वर्गों का तुलनात्मक अध्ययन मिश्रित अथवा बहु दंड आरेख द्वारा आसान होता है।
- (iii) दंड मानचित्र में भी बनाये जा सकते हैं।
- (iv) दंड आरेख का बनाना और समझना आसान है।
- (v) छोटे-छोटे अन्तरों के लिये दंड आरेख या कोई अन्य ग्राफ उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे सांख्यकीय मानों के समान शु) नहीं होते।
- (vi) यह आरेख अधिक स्थान घेरता है।

द्व्यग्रन्थ वृत्तारेख

बहु दंड आरेख में हम विभिन्न क्षेत्रों के चरांकों के वर्गों की तुलना करते हैं। परन्तु जब चरांकों के वर्ग बहुत हों और क्षेत्र थोड़े हों तो इनका प्रतिरूपण दंड आरेख की अपेक्षा वृत्तारेख द्वारा अधिक सुविधाजनक होता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का आनुपातिक भाग वृत्त के खंड एवं केन्द्र पर बने कोण से दर्शाया जाता है।

वृत्तारेख बनाने में प्रत्येक वर्ग के कोण की गणना की जाती है। निर एक उपयुक्त आकार के वृत्त के केन्द्र पर कोण बनाये जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग का आनुपातिक भाग कोण में तथा कोण द्वारा बने वृत्त के खण्ड से दर्शाया जाता है।

कोण की गणना करने के लिए वर्ग के मान को कुल मान द्वासभी वर्गों का योगऋ से भाग करके आई संख्या को 360 से गुणा किया जाता है। यदि वर्ग का मान प्रतिशत में दिया गया हो तो कोण निकालने के लिये प्रतिशत को 3.60 से गुणा करते हैं। इस प्रकार निकाले सभी वर्गों के कोणों का योग 360 होना चाहिए। इसकी जाँच आरेख बनाने से पहले कर लेनी चाहिए।

उदाहरण

भारत में 1950 और 1992 के भू उपयोग के आंकड़े नीचे दिये गये हैं। इन आंकड़ों को वृत्तारेख द्वारा दर्शाइये जिससे दोनों वर्षों में भूमि उपयोग में आए अन्तर को समझा जा सके।

आंकड़ों की व्याख्या तथा संख्यिकीय आरेख

सारणी 5.12 भारत में भूमि के विविध उपयोग

द्व्यास लाख हेक्टेयर में

वर्ष	वन	गैर कृषि	बंजर	चारागाह	बाग	कृषि योग्य बंजर	परती भूमि	कुल बोया गया क्षेत्र	कुल क्षेत्र
1950	40.5	9.4	38.1	6.7	19.8	22.9	28.1	118.8	284.3
1992	68.1	21.9	19.4	11.3	3.7	14.7	23.6	142.5	305.2

स्रोत: स्टेस्टिकल एक्सट्रैक्ट अफ इंडिया 1997

ऊपर दिये गये विभिन्न भूमि उपयोगों के आंकड़ों को ऊपर बताई विधि द्वारा निम्नलिखित कोणों द्वारा में बदला गया है:

सारणी 5.13

वर्ष	वन	गैर कृषि	बंजर	चारागाह	बाग	कृषि योग्य बंजर	परती भूमि	कुल बोया गया क्षेत्र	कुल क्षेत्र
1950	51.3	11.9	48.2	8.5	25.1	29.0	35.6	150.4	360
1992	80.3	25.8	22.9	13.3	4.4	17.3	27.8	168.2	360

वृत्त के कोणों की गणना कैसे की जाती है, इसे समझने के लिये कृषि योग्य बंजर भूमि का उदाहरण लेते हैं। यह 1950 में 22.9 द्विमिलियन हेक्टेयर का था। इसका कोण होगा $\frac{22.9}{284.3} \times 360 = 28.9975^\circ$ जिसे एक दशमलव स्थान तक पूर्णांक करने पर 29.0°

कोण आता है। इसी प्रकार 1992 में कृषि योग्य बंजर भूमि का कोण होगा $-14.7/305.2 \times 360 = 17.3394^\circ$ जिसे एक दशमलव स्थान तक पूर्णांक करने पर 17.3° आया। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि दंड आरेख के अवगुण के समान सभी ग्राहीय विधियाँ सांख्यिकीय विधियाँ की तुलना में कम शु) होती हैं। अतः एक या दो दशमलव स्थान तक ही संख्या को पूर्णांक करना चाहिए। लघु अन्तरों को ग्रह पर नहीं दिखाया जा सकता।

भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों के ऊपर दिये अनुपात के आधार पर बनाया गया वृत्त आरेख चित्र 5.6 में दिखाया गया है। इस चित्र को ध्यान से देखने पर भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों के आनुपातिक प्रतिरूप की ही जानकारी, नहीं मिलती वरन् 1950 और 1992 के बीच उनमें होने वाले परिवर्तन का भी बोध होता है। वृत्तारेख से स्पष्ट जानकारी मिलती है कि 1950-92 के बीच वनीय क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई है। इसी प्रकार कुल बोये गये क्षेत्र में भी भारी वृद्धि हुई है। इसके दूसरी ओर आरेख दर्शाता है कि परती भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, बंजर भूमि और बागों के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्र घट रहा है।

भूगोल

प्रयोगात्मक पुस्तिका




टिप्पणी



यदि हम दो अलग-अलग क्षेत्रों के बर्गों को इस प्रकार दिखाते हैं कि एक क्षेत्र बड़ा हो और दूसरा छोटा तो उनके वृत्तों का आकार उनके क्षेत्रों के अनुपात में होगा। उदाहरण के लिये यदि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भूमि उपयोग दिखाना है तो वृत्तों के आकार राज्यों के क्षेत्रों के अनुपात में होंगे। इसके बाद प्रत्येक राज्य के विभिन्न भूमि उपयोगों को दिखाने की विधि जैसी ही होगी। इनमें एक वृत्तारेख बड़ा होगा और दूसरा छोटा। इनके वृत्त खंड दोनों राज्यों के आनुपातिक भूमि उपयोग दिखायेंगे।

वृत्तारेख की विशेषताएँ

- (i) यह किसी परिघटना के आनुपातिक संघटन को दिखाने का बेहतर ढंग है(क्योंकि यह आरेख द्विविम स्थान धेरता है, जबकि दंड केवल ऊँचाई या लम्बाई दर्शाते हैं।



चित्र 5.6 वृत्तारेख

- (ii) जब घटकों की संख्या ज्यादा होती है तो उन्हें मिश्रित दंड या बहु दंडों द्वारा दिखाना कठिन होता है। ऐसी परिस्थिति में वृत्तारेख बहुत ही उपयुक्त होता है।
- (iii) दंड आरेख की तुलना में वृत्तारेख कम जगह धेरता है।
- (iv) इसमें गणितीय गुणा-भाग अधिक करना पड़ता है।
- (v) जब थोड़ी सी इकाइयों, क्षेत्रों, राज्यों के उपर्योगों की तुलना करनी हो तो यह आरेख प्रभावी होता है। जब बहुत अधिक इकाइयों की तुलना करनी होती है तो वृत्तारेख के स्थान पर बहुदंड आरेख चुना जाता है।

द्व्यग्रन्थ तारा आरेख

इस आरेख में केन्द्र से अरीय रेखायें खींची जाती हैं जो किसी मात्रा या दिनों की संख्या का निरूपण करती हैं। अरीय रेखाओं की लम्बाई उनके द्वारा निरूपित की जाने वाली मात्रा या दिनों की संख्या के अनुपात में होती है। जब रेखाओं के बाहरी बिन्दुओं को एक दूसरे से मिला दिया जाता है तो इससे बनी आकृति तारे के समान होती है। इसीलिये इस आरेख को तारा आरेख कहा जाता है। पवनारेख तारा आरेख का एक विशिष्ट उदाहरण है।

उदाहरण

नीचे दिये आंकड़ों का निरूपण तारा आरेख द्वारा करिये।

सारणी 5.14

पवन की दिशा	दिनों की संख्या	पवन की दिशा	दिनों की संख्या
उत्तर छूट.ऋ	51	दक्षिण-पश्चिम छूट.प.ऋ	57
		पश्चिम छूट.ऋ	32
उत्तर-पूर्व छूट.पू.ऋ	22	उत्तर-पश्चिम छूट.प.ऋ	52
पूर्व छूट.ऋ	17	शांत दिन	37
दक्षिण-पूर्व छूट.पू.ऋ	42	योग	365
दक्षिण छूट.ऋ	55		

तारा आरेख की रचना

तारा आरेख की रचना में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:


- (i) पवन के बहने की दिशायें आठ हैं। अतः केन्द्र से 45° के अन्तराल पर हम आठ अरीय रेखायें, खींचते हैं जो पवन की आठ दिशाओं को बताती हैं।
- (ii) अब इन रेखाओं पर उ., उ.पू., पू., द.पू., द., द.प., प. और उ.प. क्रमशः लिखा जाता है।
- (iii) प्रत्येक रेखा की लम्बाई दिनों की संख्या बतायेगी जिनमें पवन प्रत्येक दिशा से बहती है। इसके लिये कागज के आकार को ध्यान में रखकर हम उपयुक्त पैमाना चुनते हैं। यहाँ पैमाना है: 1 सेमी = 20 दिन।

इस पैमाने के आधार पर प्रत्येक दिशा की रेखा की लम्बाई निम्नलिखित होगी:

$$\begin{array}{lll} \text{उ.} = 2.55 \text{ सेमी.} & \text{द.पू.} = 2.1 \text{ सेमी.} & \text{प.} = 1.6 \text{ सेमी.} \\ \text{उ.पू.} = 1.1 \text{ सेमी.} & \text{द.} = 2.75 \text{ सेमी.} & \text{उ.प.} = 2.6 \text{ सेमी.} \\ \text{पू.} = 0.85 \text{ सेमी.} & \text{द.प.} = 2.85 \text{ सेमी.} & \text{शान्त} = 1.85 \text{ सेमी.} \end{array}$$

- (iv) ऊपर दी गई लम्बाई के अनुसार केन्द्र से प्रत्येक दिशा की रेखा खींचिए। शान्त दिनों के लिये केन्द्र पर 1.85 सेमी की त्रिज्या लेकर वृत्त बनाइये।
- (v) सभी रेखाओं के सिरे बिन्दुओं को मिलाने से तारा आरेख बन जायेगा।
- (vi) केन्द्र पर बनाये गये वृत्त के भीतर शांत दिनों की संख्या लिखी जाती है। इस प्रकार के बने तारा आरेख द्वारा पवन की दिशा दर्शाई जाती है।





चित्र 5.7 तारा आरेख

तारा आरेख की विशेषताएँ

- (i) तारा आरेख की रचना बहुत सरल है। इसमें रेखाओं की लंबाइयों की गणना के अतिरिक्त गणितीय परिकलन नहीं किया जाता।
- (ii) तारा आरेख जलवायु विज्ञान संबंधी मानचित्रों और पायलट चार्टों पर दर्शाये जाते हैं। इनके द्वारा किसी क्षेत्र की मौसम की दशाओं की जानकारी मिलती है।

5.4 वितरण मानचित्र

किसी भी क्षेत्र विशेष के सांख्यकीय आंकड़ों का मानचित्र पर प्रदर्शन वितरण मानचित्र कहलाता है। विभिन्न प्रकार के वितरण मानचित्रों को तैयार किया जाता है जैसे-मृदा, नस्लें, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, वर्षा, तापमान आदि। वितरण मानचित्र तैयार करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता पड़ती है:

1. सम्बंधित प्रदेश/क्षेत्र/प्रशासनिक इकाई का रेखा मानचित्र।
2. उसी क्षेत्र का उच्चावच मानचित्र जिस पर वन क्षेत्र, जल खण्डों, दलदली भूमियों तथा समोच्च रेखाओं का प्रदर्शन हो।
3. उसी क्षेत्र का मृदा मानचित्र तथा जलवायविक मानचित्र होना चाहिए।
4. नगरों को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र होना चाहिए।

वितरण मानचित्र बनाने की कई विधियाँ हैं परन्तु यहां केवल दो विधियों-बिन्दु मानचित्र तथा वर्णमात्री विधि की व्याख्या की जाएगी।



टिप्पणी

द्वकन्द्र बिन्दु मानचित्र

बिन्दु मानचित्र द्वारा ऐसा दृश्य प्रस्तुत होता है जिसमें किसी घटना के कम या अधिक घनत्व का बोधा समान आकार के बिन्दुओं से होता है। इसमें असतत आंकड़े या अबाधा संख्यायें प्रयुक्त की जाती हैं, जिन्हें किसी पैमाने के आधार पर बिन्दुओं की संख्या में बदला जाता है।

बिन्दु एक चिन्ह है, जिसके उपयोग द्वारा किसी घटना का क्षेत्रीय वितरण दर्शाया जाता है। बिन्दु मानचित्र में आंकड़ों का प्रतिरूपण एक बिन्दु विधि या बहु बिन्दु विधि द्वारा किया जाता है। यहां केवल एक बिन्दु विधि की ही चर्चा करेंगे।

एक बिन्दु विधि में मानचित्र के सारे क्षेत्र में बिन्दुओं का आकार एक समान रखा जाता है। जब मानचित्र में एक ही घटना अर्थात् जनसंख्या का वितरण दर्शाना हो तो एक ही रंग के बिंदु दिखाये जाते हैं। जब मानचित्र में कई घटनाएं दर्शाना हो तो विभिन्न रंगों के बिन्दु दिखाये जाते हैं। उदाहरण के लिये मानचित्र में जनजातीय जनसंख्या का वितरण दिखाना है तो प्रत्येक जनजाति के लिये अलग रंग के बिन्दु चुने जाते हैं, परन्तु सभी रंगों के बिन्दुओं का आकार सारे मानचित्र में एक समान रखा जाता है।

उदाहरण

2001 में हरियाणा की जनसंख्या जो सारणी 5.15 में दी गई है का वितरण चित्र 5.8 में दिखाया गया है। सारणी के चौथे कालम में, 1 बिन्दु 20,000 लोगों को दर्शाता है, पैमाने के आधार पर बिन्दुओं की संख्या गणना करके लिख दी गई है।

सारणी 5.15 हरियाणा में जनसंख्या का वितरण, 2001

क्र.सं.	जिला	व्यद्वित्रियों की संख्या	बिन्दुओं की संख्या
1	2	3	4
1.	अमूला	1013660	51
2.	कुरुक्षेत्र	828120	41
3.	करनाल	1274843	64
4.	जींद	1189725	59
5.	सोनीपत	1278830	64
6.	पानीपत	967338	48
7.	रोहतक	940036	47
8.	पंचकुला	469210	23
9.	जरीदाबाद	2193276	110

भूगोल

प्रयोगात्मक पुस्तिका



टिप्पणी

आंकड़ों की व्याख्या तथा संख्यकीय आरेख

10.	गुडगाँव	1657669	83
11.	महेन्द्रगढ़	812022	41
12.	भिवानी	1424554	71
13.	हिसार	1536417	77
14.	सिरसा	1111012	56
15.	रिवाड़ी	764727	38
16.	कैथल	845631	47
17.	यमुना नगर	982369	49
18.	नतेहाबाद	806158	40
19.	झज्जर	887392	44
20.	हरियाणा	21082989	

स्रोत: भारत की जनगणना, 2001

बिन्दु मानचित्र की रचना

सर्वप्रथम जिस क्षेत्र का मानचित्र बनाना है उसका आधार मानचित्र और दिखाये जाने वाले आंकड़े उपलब्ध होना चाहिए। निः जिन प्रशासनिक इकाइयों के आंकड़े उपलब्ध हैं, उन प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को आधार मानचित्र में पेंसिल या हल्की स्याही से अंकित करना चाहिए। ऐसी प्रशासनिक इकाइयों को इकाई-क्षेत्र कहा जाता है और प्रत्येक बिन्दु का मान इकाई-मान कहलाता है। ऊपर दिये गये उदाहरण में जिले इकाई-क्षेत्र हैं और प्रति बिन्दु 20000 लोग इकाई-मान हैं। बिन्दु मानचित्र की रचना निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है:

- (i) इकाई-मान का निर्धारण।
- (ii) बिन्दुओं का समान और उचित आकार का निर्धारण।
- (iii) मानचित्र पर बिन्दुओं को उचित स्थान पर लगाना।

इकाई मान और मानचित्र पर लगाए जाने वाले बिन्दुओं की इकाई मान और मानचित्र पर लगाए जाने वाले बिन्दुओं की ठीक-ठीक संख्या तय हो जाने के बाद मानचित्र के प्रत्येक इकाई क्षेत्र में समान आकार के बिन्दु लगाए जाते हैं।

(i) इकाई मान और बिन्दु के आकार का चयन

इकाई मान द्वारा ज्ञात होता है कि इकाई क्षेत्र में कितने बिन्दु लगाए जाएंगे। इकाई मान को तय करने के लिए सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि संख्याओं के बीच अंतर कितना है और उसके बाद ही एक बिन्दु का मान निर्धारित किया जाता है। चुना गया

इकाई मान हमेशा पूर्णांक होता है। सामान्यतया यह 10 का गुणक होता है। वास्तविक संख्याओं के खंड या अपूर्ण संख्याएं मानचित्र पर निरूपित नहीं की जाती।

चुना गया इकाई मान इतना छोटा नहीं होना चाहिए जिससे अधिक घने क्षेत्रों में बिन्दु लगाने में कठिनाई आए। इसके दूसरी ओर यह इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि कम घनत्व वाले क्षेत्र बिल्कुल खाली दिखाई दें और महत्वहीन हो जाएं। प्रयोग करना इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है। चित्र 5.8 में दिए बिन्दु मानचित्र में इकाई मान प्रति बिन्दु के लिए 20,000 लोग, लिया गया है।

(ii) मानचित्र में बिन्दु लगाना

जिन आधार मानचित्रों में भौतिक और सांस्कृतिक लक्षण भी दर्शाए होते हैं, उनमें बिन्दु लगाने में बड़ी मदद मिलती है। इनकी मदद से अनुकूल और प्रतिकूल क्षेत्रों का सीमांकन करना आसान होता है। अनुकूल क्षेत्रों में तथ्य की अधिकता होती है और प्रतिकूल क्षेत्रों में उसकी कमी या विरलता। उदाहरण के लिए जनसंख्या वितरण मानचित्रों में प्रतिकूल क्षेत्र गैर-सार्वभौमिकता के लिए जाने जाते हैं अर्थात् मरुस्थल, दलदली भूमि, बाढ़ मैदान आदि मानवीय आवास के लिए अनुकूल नहीं हैं।


बिन्दु लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीमान्त क्षेत्रों को खाली न छोड़ा जाए। यह भी सावधानी रखनी चाहिए कि बिन्दु रेखा या गुच्छ का प्रतिरूप न दर्शाए जो वास्तविकता में नहीं है। चित्र 5.8 में हरियाणा के भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों को सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही जनसंख्या का जिलेवार वितरण दिखाने के लिए बिन्दु लगाए गए हैं।

बिन्दु मानचित्र की व्याख्या

बिन्दु मानचित्र में वितरण प्रतिरूप बिन्दु द्वारा दर्शाया जाता है, अतः व्याख्या करने के लिए कोई भी व्यक्ति से)न्तिक रूप में बिन्दुओं को गिनता है और एक बिन्दु के मान से उन कुल बिन्दुओं की संख्या को गुणा करता है। परन्तु सामान्यतया लोग यह जानकारी मूल स्रोत से प्राप्त करके वितरण प्रतिरूप को जानने का प्रयास करते हैं। बिन्दु मानचित्र की व्याख्या करते समय निम्नलिखित सियन्तों को ध्यान में रखना चाहिए:

- सारे क्षेत्र को अधिक घने, मध्यम घने और कम घने क्षेत्रों में बांटना।
- जो क्षेत्र या जिले सामान्य प्रतिरूप में नहीं आते उनकी अपवाद के रूप में अलग से व्याख्या करना।
- यदि आवश्यकता हो तो संबंधित सारणी में दी गई वास्तविक संख्याओं की मदद से व्याख्या को अधिक स्पष्ट करना।

इन सियन्तों को अपनाते हुए चित्र 5.8 में दिए हरियाणा की जनसंख्या के वितरण






मानचित्र की व्याख्या की जा सकती है। वितरण की प्रकृति लगभग समान है। आंकड़ों में विचरण बहुत धीमा है। अतः अति उच्च संकेन्द्रण के केन्द्र मानचित्र में नहीं है। परन्तु सामान्य प्रतिरूप दर्शाता है कि दक्षिण-पूर्वी हरियाणा, उत्तर-पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक घना आबाद है। बिन्दुओं की संख्या के आधार पर नवीदाबाद जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है और पंचकुला की सबसे कम है।

हरियाणा

जनसंख्या घनत्व 2001



चित्र 5.8 बिन्दु मानचित्र

बिन्दु मानचित्र की विशेषताएँ

- (i) बिन्दु मानचित्र द्वारा वितरण की स्पष्ट एवं सही जानकारी मिलती है।
- (ii) यह आनुपातिक होता है।
- (iii) बिन्दु मानचित्र को सममान और वर्णमात्री मानचित्रों में भी बदला जा सकता है। परन्तु इस प्रक्रिया को उलटा नहीं जा सकता।

भूगोल

प्रयोगात्मक पुस्तिका



टिप्पणी

आंकड़ों की व्याख्या तथा संख्यिकीय आरेख

- (iv) बिन्दु मानचित्र को परिशु) विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संख्याओं और बिन्दुओं का सीधा अनुपात होता है।
- (v) बिन्दु मानचित्र बनाना आसान है। इसमें कोई खास गणितीय परिकलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल इकाई मान के अनुसार बिन्दुओं की संख्या निकालनी होती है।
- (vi) ऐसा भी हो सकता है कि बिन्दु उस स्थान पर लगाए गए हों, जहां लक्षण वास्तविक रूप में मौजूद नहीं हो।
- (vii) जहां तथ्य का वितरण बहुत ही असमान हो वहां बिन्दु विधि अधिक कारगर नहीं होती।
- (viii) छोटे-छोटे क्षेत्रों में प्रायः बिन्दु एक दूसरे से मिल जाते हैं। अतः उनका गिनना कठिन हो जाता है और आंकड़ों के आधारभूत स्रोत की जानकारी लेनी पड़ती है।

द्वार्घ वर्णमात्री मानचित्र

वर्णमात्री स्थानिक आंकड़ों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। इसमें सूचना की तीव्रता और घनत्व के आधार पर आभाएँ बनाई जाती हैं। अपरिष्कृत स्थानिक आंकड़ों को सबसे पहले व्यवस्थित किया जाता है और उसके विभिन्न वर्ग बनाए जाते हैं। एक वर्ग के लिए एक समान आभा या रंग निश्चित किया जाता है। आभाओं का चयन कुछ निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है। सामान्य तथा गहरी आभाओं द्वारा उच्च मान/घनत्व/तीव्रता दर्शाएँ जाते हैं। इसके विपरीत न्यून मानों/घनत्व/तीव्रता के लिए हल्की आभाओं/रंगों का प्रयोग किया जाता है।

उदाहरण

वर्णमात्री विधि को समझने के लिए हरियाणा राज्य के सभी जिलों की जनसंख्या के घनत्व को सारणी 5.16 में दिया गया है।

सारणी 5.16 हरियाणा में जनसंख्या घनत्व 2001

क्र.सं. I	जिला II	क्षेत्रकल द्वार्घ कि. मेंक्र III	जनसंख्या IV	घनत्व V
1.	अम्बाला	1569	1013660	646
2.	कुरुक्षेत्र	1217	828120	680
3.	करनाल	2471	1274843	516
4.	जींद	2736	1189725	435
5.	सोनीपत	2260	1278830	566
6.	पानीपत	1250	967338	774

भूगोल

प्रयोगात्मक पुस्तिका



टिप्पणी

आंकड़ों की व्याख्या तथा संख्यकीय आरेख

7.	रोहतक	1668	940036	564
8.	पंचकुला	816	469210	575
9.	नरीदाबाद	2105	2193276	1042
10.	गुडगांव	2700	1657669	614
11.	महेंद्रगढ़	1683	812022	483
12.	भिवानी	5140	1424554	277
13.	हिसार	3788	1536417	406
14.	सिरसा	4276	1111012	260
15.	रिवाड़ी	1559	764727	491
16.	कैथल	2799	945631	338
17.	यमुना नगर	1756	982369	559
18.	नतेहाबाद	2491	806158	324
19.	झज्जर	1868	887392	475
20.	हरियाणा	44152	21082989	478

स्रोत: भारत की जनगणना, 2001

वर्णमात्री मानचित्र की रचना


वर्णमात्री मानचित्र में क्षेत्रीय आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। अतः इसके लिए उपविभागों, जिले और तहसील की सीमाओं वाले मानचित्र की आवश्यकता होती है। वर्णमात्री मानचित्र की रचना के लिए मानचित्र के उपविभाग अर्थात् ब्लाक, जिला या राज्य जैसी प्रशासकीय इकाइयाँ क्षेत्रीय इकाई के रूप में स्वीकार की जाती हैं।

जैसा कि हम जानते हैं कि लोग गाँव, कस्बों और नगरों जैसी बस्तियों में रहते हैं। स्थान या धारातल पर जनसंख्या का वितरण समान या निरन्तर नहीं होता। सभी बस्तियों के व्यद्वियों की गणना करके वहाँ की कुल जनसंख्या ज्ञात की जाती है। अगर हम कुल जनसंख्या को ब्लाक/जिला के क्षेत्रफल से भाग कर दें तो उस क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व ज्ञात हो जाता है। किसी प्रशासनिक इकाई की कुल जनसंख्या को मानचित्र निर्माण के लिए समान रूप से वितरित मान लिया जाता है। इसीलिए सम्पूर्ण जिले को किसी एक निश्चित आभा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

घनत्व/उत्पादकता/साक्षरता को जानकर उन्हें विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर लिया जाता है। उस वर्ग में आने वाली प्रशासनिक इकाइयों की एक आभा निश्चित कर दी जाती है। इसीलिए उच्च मानों के लिए गहरी आभा तथा न्यून मानों के लिए हल्की आभाओं का प्रयोग किया जाता है। इनके बीच में मानों के क्रमानुसार आभाओं की गहनता बदलती जाती है।

हरियाणा जनसंख्या घनत्व 2001

टिप्पणी



चित्र 5.9 वर्णमात्री मानचित्र

वर्णमात्री मानचित्र की व्याख्या

वर्णमात्री मानचित्रों की व्याख्या करते समय हमें आभाओं के सामान्य प्रतिरूपों को ध्यान में रखना चाहिए। आभाओं के प्रतिरूप को धारातल पर बढ़ती या घटती प्रवृत्तियों के रूप में समझना चाहिए। कुछ अलग-थलग पड़े क्षेत्रों के घनत्व के उच्च संकेन्द्रण के लिए अनुकूल दशाओं को उत्तरदायी माना जा सकता है। इसीलिए इसकी व्याख्या इसी संदर्भ में की जानी चाहिए।



चित्र संख्या 5.9 पर सरसरी दृष्टि डालने से सह पता चल जाता है कि जनसंख्या का अधिक घनत्व हरियाणा के पूर्वी भाग में पाया जाता है। जैसे-जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं घनत्व घटता जाता है। हरियाणा के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी-पश्चिमी भागों में घनत्व सबसे कम है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित नरीदाबाद का घनत्व सर्वाधिक छा 1042 व्यद्वि प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। जनसंख्या घनत्व के मानचित्र में जनसंख्या घनत्व के पाँच वर्ग दिखाए गए हैं। ये वर्ग हैं- बहुत कम, कम, मध्यम, उच्च और अति उच्च। हरियाणा के दक्षिणी-पश्चिमी भाग के जिले भिवानी में जनसंख्या घनत्व सबसे कम छा 260 व्यद्वि प्रति वर्ग कि.मी. पर पाया जाता है। जनसंख्या के उच्च और निम्न घनत्व में 750 व्यद्वि प्रति वर्ग कि.मी. का अन्तर है। जनसंख्या घनत्व के विभिन्न वर्गों के जिलों के नाम नीचे दिए गए हैं-

अति उच्च घनत्व	- नरीदाबाद, पानीपत, कुरुक्षेत्र और अम्बाला
उच्च घनत्व	- गुडगाँव, पंचकुला, सोनीपत, रोहतक, यमुना नगर
मध्यम घनत्व	- करनाल, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, झज्जर, जींद
कम घनत्व	- हिसार और कैथल
बहुत कम घनत्व	- नतेहाबाद, भिवानी, सिरसा

वर्णमात्री मानचित्र की विशेषताएँ

- वर्णमात्री मानचित्र में विभिन्न आभाएँ दिखाई जाती हैं। आभाओं की गहनता में परिवर्तन पैमाने के मानों की घट-बढ़ को प्रदर्शित करता है।
- किसी एक वर्ग की आभा उसी मान को प्रदर्शित करती है, लेकिन आभाओं के परिसर में भी परिवर्तन आ जाता है।
- वितरण की दृष्टि से सम्पूर्ण प्रशासकीय इकाई को एक समान माना जाता है। लेकिन वास्तव में यह सत्य नहीं होता है।
- प्रशासनिक सीमा पड़ोसी इकाई के मध्य तीव्र विभाजन को प्रदर्शित करती है।
- गहरी और हल्की आभाएँ एक दूसरे के पास-पास भी हो सकती हैं।
- अनेक बार ऐसा भी होता है कि पृथ्वी के धारातल पर बदलती प्रवृत्तियों को सही ढंग से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।
- कुछ छोटे-छोटे क्षेत्र अलग से स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं।
- बदलती प्रवृत्तियों की तुलना दो समयावधियों के मानचित्र बनाकर की जा सकती है।

आंकड़ों की व्याख्या तथा संख्यिकीय आरेख

प्रायोगात्मक अभिलेख पुस्तिका के लिए अभ्यास

- 1901-91 तक भारत की जनसंख्या वृ) को दर्शाने वाला एक रेखीय ग्राफ बनाइए।

वर्ष	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991
जनसंख्याद्वारा रोड़ मेंक्ष	23.8	25.2	25.1	27.9	31.9	36.1	43.9	54.8	68.6	84.4

- तिरुवनन्तपुरम की वर्षा के नीचे दिये आंकड़ों को दिखाने के लिए एक दंड आरेख बनाइए।

महीने	ज.	र.	मा.	अ.	म.	जू.	जु.	अ.	सि.	अ.	न.	दि.
वर्षा-द्वारा मेंक्ष	22.9	20.8	38.6	105.7	207.8	356.4	223.0	145.5	137.9	273.3	205.5	74.5

- निम्नलिखित आंकड़ों को तारा आरेख में निरूपित करिए।

पवन दिशा	दिनों की संख्या	पवन दिशा	दिनों की संख्या
उत्तर-द्वारा	45	दक्षिण-पश्चिम द्वारा प.त्रह	15
उत्तर-पूर्व द्वारा पूर्त्रह	110	पश्चिम-द्वारा पत्रह	90
पूर्व-द्वारा	25	उत्तर-पश्चिम द्वारा पत्रह	20
दक्षिण-पूर्व द्वारा पत्रह	27	शांत दिन	10
दक्षिण-द्वारा	23	कुल योग	365

भूगोल

प्रायोगात्मक पुस्तिका



टिप्पणी